

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-60/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. नगर पंचायत शिवरीनारायण को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	जनकपुर वार्ड
2	अग्रसेन वार्ड
3	निषाद वार्ड
4	मठ मंदिर वार्ड
5	भगवान शिवरीनारायण वार्ड
6	महात्मा गांधी वार्ड
7	आजाद चन्द्र शेखर वार्ड
8	पं. नेहरू वार्ड
9	सुभाष चन्द्रबोस वार्ड
10	डॉ. अंबेडकर वार्ड
11	विद्यानगर वार्ड
12	भगतसिंह वार्ड
13	ठाकुर देव वार्ड
14	नाथ बाबा वार्ड
15	सेठी नगर वार्ड

नगर पंचायत शिवरीनारायण के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क0 01 जनकपुर वार्ड

उत्तर — पेट्रोल पम्प से हनुमान मंदिर तक
 पूर्व — हनुमान मंदिर से महिला बाल उद्यान तक
 दक्षिण — महिलाबाल उद्यान से शिकारी डेरा तक
 पश्चिम — शिकारी डेरा से पेट्रोल पंप तक

वार्ड क0 02 अग्रसेन वार्ड

उत्तर — हनुमान मंदिर से राममोहन होटल तक
 पूर्व — राम मोहन होटल से भोला भट्ट के घर तक
 दक्षिण — भोला भट्ट के घर से महिला बाल उद्यान तक
 पश्चिम — महिला बाल उद्यान से हनुमान मंदिर तक

वार्ड क0 03 निषाद वार्ड

उत्तर — नायक मंदिर से बलराम केशरवानी घर तक
 पूर्व — बलराम केशरवानी घर से साई मंदिर बाबाघाट तक
 दक्षिण — साई मंदिर बाबाघाट से कबीर मंदिर सुलभ शौचालय तक
 पश्चिम — कबीर मंदिर सुलभ शौचालय से नायक मंदिर तक

वार्ड क0 04 मठ मंदिर वार्ड

उत्तर — रघुनाथ के0 (लोहा दुकान) से बड़े मंदिर तक
 पूर्व — बड़े मंदिर से चंद्रिका केशरवानी घर पचरी घाट तक
 दक्षिण — चन्द्रिका केशरवानी घर पचरी घाट से रघुनाथ कैवट घर तक
 पश्चिम — रघुनाथ कैवट घर से रघुनाथ केशरवानी लोहा दुकान तक

वार्ड क0 05 भगवान शिवरीनारायण वार्ड

उत्तर — जवाहर कलाथ स्टोर से मनोज तिवारी के मकान तक
 पूर्व — मनोज तिवारी के मकान से छोटेलाल घर होते भरत सोनी के मकान तक
 दक्षिण — भरत सोनी के घर से कार्तिक घर तक
 पश्चिम — कार्तिक घर से जवाहर कलाथ स्टोर्स तक

वार्ड क0 06 महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर — नटराज चौक सतनामी धर्मशाला से गंगा बाई कलारिन के मकान तक
 पूर्व — गंगा बाई कलारिन के मकान से नवधा सारथी के घर होते हुए खोमी सोनी के मकान तक
 दक्षिण — खोमी सोनी के मकान से किसान वस्त्रालय तक
 पश्चिम — किसान वस्त्रालय से नटराज चौक सतनामी धर्मशाला तक

वार्ड क0 07 आजाद चन्द्र शेखर वार्ड

- उत्तर – विरेन्द्र सोनी के घर से बसंत यादव के मकान तक
 पूर्व – बसंत यादव के मकान से राजाराम यादव के मकान तक
 दक्षिण – राजाराम यादव के मकान से पचरी घाट तक
 पश्चिम – पचरी घाट से लम्बा दुकान होते विरेन्द्र सोनी के मकान तक

वार्ड क0 08 पं0 नेहरू वार्ड

- उत्तर – जनक तिवारी के मकान से शिवकुमार केशरवानी के मकान तक।
 पूर्व – शिवकुमार केशरवानी के मकान से पुराना रपटाघाट तक।
 दक्षिण – पुराना रपटाघाट से सुखसागर के मकान तक
 पश्चिम – सुखसागर के मकान से जनक तिवारी के मकान तक

वार्ड क0 09 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड

- उत्तर – गणेशराम बघेल घर से आम बगीचा शिवरात्री के घर तक।
 पूर्व – आम बगीचा शिवरात्री घर से नदी किनारे तक
 दक्षिण – नदी किनारे अशोक यादव के मकान तक
 पश्चिम – अशोक यादव के मकान से गणेशराम बघेल के घर तक

वार्ड क0 10 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर – खण्डेलिया चाल से अम्बेडकर चौक तक
 पूर्व – अम्बेडकर चौक से रपटा चौक तक
 दक्षिण – रपटा चौक से भागवत तिवारी के मकान तक
 पश्चिम – भागवत तिवारी के मकान से कमला सहिस घर होते खंडेलिया चाल तक

वार्ड क0 11 विद्यानगर वार्ड

- उत्तर – अम्बेडकर चौक से श्रीराम इलेक्ट्रीकल्स तक
 पूर्व – श्रीराम इलेक्ट्रीकल्स से नेहरू बालोद्यान तक
 दक्षिण – नेहरू बालोद्यान से संजय चौधरी मकान तक
 पश्चिम – संजय चौधरी मकान से अम्बेडकर चौक तक

वार्ड क0 12 भगत सिंह वार्ड

- उत्तर – अश्वनी तिवारी के मकान से ललारी नाला तक
 पूर्व – ललारी नाला से डॉ0 अन्विता ध्रुव के मकान तक
 दक्षिण – डॉ0 अन्विता ध्रुव के मकान से परदेशी केवट घर तक
 पश्चिम – परदेशी केवट घर से अश्वनी तिवारी के मकान तक

वार्ड क0 13 ठाकुरदेव वार्ड

- उत्तर – विजय तिवारी खेत ख0न0 6/5से सब स्टेशन तक
पूर्व – सब स्टेशन से प्रकाश बंसल के घर तक
दक्षिण – प्रकाश बंसल घर से ठाकुर देव चौक होते भगवती के खेत ख0न0 6/10 तक
पश्चिम – भगवती के खेत ख0न0 6/10 से विजय तिवारी खेत ख0न0 6/5से तक

वार्ड क0 14 नाथबाबा वार्ड

- उत्तर – किशोरी बाड़ी तिरहा से किर्तन केशरवानी के घर तक
पूर्व – किर्तन केशरवानी के घर से भानु पटेल के मकान तक
दक्षिण – भानु पटेल के मकान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक
पश्चिम – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से किशोरी बाड़ी तिरहा तक

वार्ड क0 15 सेठी नगर वार्ड

- उत्तर – हथनी डबरी तलाब से विश्वनाथ सुल्तानियों के खेत तक
पूर्व – विश्वनाथ सुल्तानियों के खेत से कुमार कॅवट घर तक
दक्षिण – कुमार कॅवट घर से उदय गुरुजी (बिलासपुर रोड) तक
पश्चिम – उदय गुरुजी (बिलासपुर रोड) से हथनी डबरी तलाब तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 01-60/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-60/2019/18 दिनांक 12/07/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F1-60/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Chhattisgarh Municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Shivrinarayan, Distt. Janjgir-Champa as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Shivrinarayan into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Janakpur ward
2	Agrashen ward
3	Nishad ward
4	Math mandir ward
5	Bhagawan shivrinarayan ward
6	Mahatma gandhi ward
7	Aazad chandra shekhar ward
8	Pt. Nehru ward
9	Subhas chandra bosh ward
10	Dr. Ambedkar ward
11	Vidya nagar ward
12	Bhagat singh ward
13	Thakurdev ward
14	Nath baba ward
15	Shethi nagar ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat
Shivrinarayan

WARD No 01- JANAKPUR WORD

- North – From Petrol pump to hanuman temple
 East. - From hanuman temple to female garden
 South - From female garden to shikari dera
 West - From shikari dera to Petrol pump

WARD No 02- AGRASHEN WARD

- North – From hanuman mandir (men road) to Rammohan hotel
 East. - From Rammohan hotel to house of Bhola Bhatt.
 South - From house of Bhola Bhatt to female garden.
 West - From female garden.to hanuman temple

WARD No 03- NISHAD WARD

- North – From nayak temple to house of balram Keshrwani
 East. - From house of balram Keshrwani to sai temple babaghat
 South - From sai temple babaghat to Kabir temple toilet complex
 West - From Kabir temple toilet complex to nayak temple

WARD No 04- MATH MANDIR WARD

- North – From Raghunath kesharwani (iron shop) to big temple
 East. - From big temple to house of chandrika kesharwani & pachri ghat
 South - From house of chandrika kesharwani & pachri ghat to house of Raghunath kenwat.
 West - From house of Raghunath kenwat to house of raghunath kesharwani (iron shop)

WARD No 05- BHAGAWAN SHIVRINARAYAN WARD

- North – From jawahr cloth store to house of manoj Tiwari
- East. - From house of manoj Tiwari to house of chhotelal & bharat soni
- South - From house of bharat soni to house of kartik
- West - From house of kartik to jawahr cloth store.

WARD No 06- MAHATMA GANDHI WARD

- North – From Nataj chowk (satnami dharamsala) to house of Ganga Bai kalarin.
- East. - From house of Ganga Bai kalarin to house of naydha sarthi & house of Khomi soni.
- South - From house of Khomi soni. to Kisan Cloth Shop
- West - From Kisan Cloth Shop to Nataj chowk (satnami dharamsala)

WARD No 07- AAZAD CHANDRA SHEKHAR WARD

- North – From house of virendra sonu to house of basant yasav
- East. - From house of basant yasav. to house of raja ram yadaw
- South - From house of raja ram yadaw to pachri ghat.
- West - From pachri ghat. to house of long shop & virendra soni

WARD No 08- Pt. NEHRU WARD

- North – From house of janak tiwari to house of Shiv kumar kesharwani.
- East. - From house of shiv kumar kesharwani to purana rapta ghat.
- South - From purana rapta ghat to house of sukhsagar
- West - From house of sukhsagar to house of Janak tiwari

WARD No 09- SUBHAS CHANDRA BOSH WARD

- North – From house of ganesh ram baghel to aam bagicha house of shivratri.
- East. - From aam bagicha house of shivratri to River side.
- South - From River side to house of ashok yadav.
- West - From house of ashok yadav to house of ganesh baghel.

WARD No 10- Dr. AMBEDKAR WARD

- North – From khandelia chal to Ambedkar chowk.
- East. - From Ambedkar chowk to rapta chowk.
- South - From rapta chowk to house of bhagwat tiwari
- West - From house of bhagwat tiwari to house of smt kamla sahis to khandelia chal

WARD No 11- VIDYA NAGAR WARD

- North – From Ambedkar chowk to shri Ram electrical
- East. - From shri Ram electrical to Nehru balodyan.
- South - From Nehru balodyan to House of sanjay choudhry.
- West - From House of sanjay choudhry to Ambedkar chowk

WARD No 12- BHAGAT SINGH WARD

- North – From house of Ashwani Tiwari to lalari nala
- East. - From lalari nala to House of smt Dr. anvita dhruv
- South - From House of smt Dr. anvita dhruv to house of Pardeshi kewat.
- West - From house of Pardeshi kewat to house of ashwani tiwari.

WARD No 13- THAKURDEV WARD

- North - From area of vijay tiwari k.n 6/5 to electric sub station.
- East. - From electric sub station.to house of Prakash bansal
- South - From house of Prakash bansal to thakurdev of bhagwati erea .n. 6/10
- West - From bhagwati erea k.n. 6/10 to area of vijay tiwari k.n 6/5.

WARD No 14- NATH BABA WARD

- North - From garden of Kisori traingle road to house of Kirtan Kesharwani.
- East. - From house of Kirtan Kesharwani to house of bhanu patel
- South - From house of bhanu patel. to P.H.C. Sheorinarayn.
- West - From P.H.C. Sheorinarayn to garden of Kisori traingle road.

WARD No 15- SHETHI NAGAR WARD

- North - From pound of hathani dabari to Viswanath Sultaniya area
- East. - From Viswanath Sultaniya area to house of kumar kewant
- South - From house of kumar kewant to House of Uday sir(bilaspur road)
- West - From House of Uday sir(bilaspur road) to house of pound of hathani dabari

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.